



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 928 राँची, मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 नवम्बर, 2019

संख्या- 5/विविध(आरोप)-03-16/2019 का०- 9019-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सूर्य प्रकाश, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-584/03, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध रिट याचिका सं०-W.P.(S) No. 1753/2016-मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित आदेश को तत्कालीन प्रधान सचिव के संज्ञान में संचिका के माध्यम से नहीं लाने, श्री टोप्पो को बार-बार द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु अतिरिक्त समय देने, W.P.(S)No.1753/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित आदेश की अवहेलना करने एवं उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री टोप्पो का निलंबन रद्द/जारी रखने संबंधी कोई प्रस्ताव तत्कालीन प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के समक्ष उपस्थापित नहीं करने तथा उक्त आदेश के विरुद्ध LPA दायर करने अथवा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक माह की अवधि के विस्तार

हेतु I.A. दायर करने संबंधी कोई प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित नहीं करने संबंधी आरोप, जैसा कि विभाग द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रकाश को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री प्रकाश द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
